



testbook **PASS**

ATTEMPT ALL TESTS  
ACROSS ALL EXAMS

**₹599** FOR  
1 YEAR  
**BUY NOW**

testbook

# न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा

सफलता और असफलता के बीच में अंतर है मनुष्य के दृढ़ संकल्प का। इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या करते हैं, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प ही हमारी सफलता की असली कुंजी है। ऐसे काफी कम प्रख्यात व्यक्तित्व वाले लोग हैं जो अपनी बेबाक राय लोगों के सामने रखते हैं। भारत के न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा भी अपने प्रख्यात व्यक्तित्व और बेबाक राय के कारण वर्तमान में सुर्खियों में बने हैं। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा वर्तमान में भारत के 45 वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। बैंकिंग और सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करते समय न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और उनकी उपलब्धियों के बारे में जानना जरूरी है। इस लेख के माध्यम से हम आपको न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा के उल्लेखनीय न्यायिक कार्यकाल और ग्रांडडब्लैकिंग फैसलों के बारे में बता रहे हैं। इस लेख को पढ़ने के बाद आप पीडीऍफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं

## न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा के बारे में

- न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा 45 वें और भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश हैं।
- वह हाल ही में भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को हटाने के ऐतिहासिक फैसला लेने के कारण सुर्खियों में हैं।
- दीपक मिश्रा ने अपने करियर की शुरुआत उड़ीसा उच्च न्यायालय में एक अतिरिक्त न्यायाधीश से की थी, जिसके बाद वे स्थायी न्यायाधीश बने।
- 28 अगस्त 2017 को, उन्हें भारत के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया था।
- वह भारत के 44 वें मुख्य न्यायाधीश जे. खेकर के उत्तराधिकारी हैं।
- न्यायमूर्ति मिश्रा ने 13 महीने की अवधि के लिए भारत को मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा दी और अब 2 अक्टूबर 2018 को रिटायर हो जाएंगे।

## न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा का प्रारंभिक जीवन

- न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा का जन्म 3 अक्टूबर 1953 को हुआ था। वह न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा के भतीजे हैं, जो 21 वें मुख्य न्यायाधीश थे।
- दीपक मिश्रा ने एक वकील के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। उड़ीसा उच्च न्यायालय और सेवा न्यायाधिकरण में संवैधानिक, नागरिक, आपराधिक, राजस्व, सेवा, और बिक्री कर मामलों में अभ्यास किया।





testbook **PASS**

ATTEMPT ALL TESTS  
ACROSS ALL EXAMS

₹400 FOR  
4 MONTHS  
BUY NOW

testbook

## न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की न्यायिक यात्रा

- दीपक मिश्रा को बेंच का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है, जिन्होंने मुंबई सीरियल बम विस्फोटों में शामिल, याकूब मेमन की याचिका को खारिज कर उसे दोषी ठहराया, साथ ही निर्भया के हत्यारों को दी गई मौत की सजा को बरकरार रखा।
- उन्होंने कुछ उल्लेखनीय निर्णय भी दिए उन्होंने दिल्ली पुलिस को पंजीकरण के 24 घंटों के भीतर अपनी वेबसाइट पर एफआईआर अपलोड करने का निर्देश दिया था ताकि अभियुक्त उन्हें डाउनलोड कर सकें और अपनी शिकायतों का निवारण कर सकें।
- न्यायमूर्ति मिश्रा उस खंड पीठ का हिस्सा भी रहे हैं, जिन्होंने सिनेमाघरों में फिल्म के शुरुआत होने से पहले राष्ट्रगान बजाने का आदेश दिया और बाद में विकलांगों को इस निर्णय के बाहर रखा।
- वह निराशाजनक मुकदमे के खिलाफ बेहद सख्त थे। उन्होंने ऐसी एक याचिका खारिज कर दी जिसने फिल्म 'धोबी घाट' के शीर्षक पर विरोध किया और याचिकाकर्ता को चेतावनी दी।
- न्यायमूर्ति मिश्रा की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने कावेरी नदी के 120 वर्षीय पुराने विवाद का निपटारा किया था।

गोएथे का हवाला देते हुए न्यायमूर्ति मिश्रा ने जिक्र किया था: "मैं वही हूँ जो मैं हूँ, इसलिए मैं जैसा हूँ मुझे वैसे ही लिया जाए।" उन्होंने आईपीसी की धारा 377 पर निशाना साधते हुए कहा था कि यह तर्कहीन है।

- भारतीय न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशीय खंडपीठ ने आधार कार्ड के मुद्दे पर अपना फैसला सुनाया और यह स्पष्ट कर दिया कि आधार कार्ड होना आवश्यक है लेकिन आधार कार्ड को बैंक खातों और फोन नंबरों से जोड़ना अनिवार्य नहीं होगा।
- 27 सितंबर 2018 को, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने फैसला सुनाया कि व्यभिचार (एडल्ट्री) आपराधिक अपराध नहीं होगा। लेकिन इसे तलाक लेने का आधार माना जा सकता है।

साथ ही अन्य महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जानें जिन्हें विभिन्न सरकारी परीक्षाओं में पूछे जाने की उम्मीद है-

<a href="#"><u>भारतीय रेगुलेटरी बॉडीज की सूची</u></a>	<a href="#"><u>भारत के बंदरगाह की सूची</u></a>
<a href="#"><u>भारत के राष्ट्रीय उद्यान की सूची</u></a>	<a href="#"><u>भारत के खेल स्टेडियम की सूची</u></a>
<a href="#"><u>राष्ट्रीय खेल पुरस्कार और विजेताओं की सूची</u></a>	



testbook **PASS**

ATTEMPT ALL TESTS  
ACROSS ALL EXAMS

₹200 FOR  
1 MONTH  
BUY NOW

testbook



testbook **PASS**

ATTEMPT ALL TESTS  
ACROSS ALL EXAMS

**₹599** FOR  
1 YEAR

BUY NOW

 testbook



testbook.com



FASTEST WAY TO PREPARE  
**CURRENT AFFAIRS**

